

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।**

पत्रांक: १४७ अगु/

जहानाबाद, दिनांक: 18/03/2024

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी, MR 3054
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- शीर्ष Bihar Rural Road Maintenance Policy 2018 अन्तर्गत कराये जा रहे कार्य के भुगतान हेतु राशि अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि शीर्ष Bihar Rural Road Maintenance Policy 2018 अन्तर्गत कराये जा रहे कार्य के भुगतान हेतु राशि की अधियाचना विहित प्रपत्र में सलग्न कर समर्पित किया जाता है।
अनु:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

18/3/24
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (10 below Rule-150)

Form of Utilisation Certificate up to the Month of march 2024

PIU-JEHANABAD

Sl.No.	Name of Schemes	Sanction No.& Date with Amount (In Lacs Rs.)	Amount Received (In Lacs Rs.)	Particulars
1	Construction of Rural Roads under MR-3054 New Maintenance Policy.	MR-3054-New Maintenance Policy-2018		Certified that out of Rs 7089.13358 Lacs of grants-in-aid Sanctioned during the year In favour of Executive Engineer R.W.D Works Div. Jehanabad Sum of Rs 6877.52435 lacs has been utilised for the purpose of New Maint. Policy-2018 Schemes as given in the margin for which It was Sanctioned and that the balance of Rs 211.60923 8lacs remaining utilized at the end of the period under report.
		BRRDA	7089.13358	
		Expenditure	6877.52435	
		Balance Total	211.60923	


Certified that I have satisfied my self that the conditions on which the grant-in aid was sanctioned have been dully fulfilled, are being fulfilled and that I have exercised the following check to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned .

Kind of check exercised

1. Work have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer
2. Periodical inspection has been conducted by Excutive Engineer/Superintending Engineer.
3. Contruction Material have been tested.
4. Measurment have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer/ Excutive Engineer
5. Other codal formalities have been observed.

Physical progress achieved

1. Contruction of Road works.
2. Contraction of CDs works .


Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division Jehanabad

Requisition Formate for Scheme Head - MR(3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy - 2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Works Division :-Jehanabad

SI No.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (In Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (In mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allotted Amount (in Lakh)	up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (In km)	Amount of (In Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (In Lakh)	5 Years Routine Maintenance (In Lakh)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	RM/JE/JAH/23/0008	Repair & Maintenance of Road from Gobindpur Middle School To Arhit Village	16301033152	1905/27.03.23	0.8	74.629	52.43388	6.04	09/MBD/23-24	16.07.24	18.03.24	2404	25.00	5.00	0.00000	0.00000	52.43388	work complete
	RM/JE/JAH/23/0008	Okri More To Banchhilli	16301033699	1905/27.03.23	1.3	142.761	105.74823	14.92	09/MBD/23-24	16.07.24	18.03.24	2133	25.00	5.00	0.00000	0.00000	105.74823	work complete
Total																	158.18211	#VALUE!

Signed Hard Copy and Soft Copy (in Excel) of recorded IRI is enclosed.

Up-to-date Physical Progress has been uploaded in MIS.

[Signature]
18.03.24
f.e

[Signature]
18.03.24
A.E.


[Signature]
18/3/24
Executive Engineer
W.D. (SP) Division
Jehanabad
[Signature]
18/3/24


कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद


कार्य का नाम— गोंविंदपुर मिडिल स्कूल से अरहित गांव

यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।

1. कराये गये कार्य के सभी अवयवों के अवयववार 100% कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कनीय अभियंता द्वारा किया गया है।
2. कराये गये कार्य के सभी अवयवों के अवयववार 50% कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन सहायक अभियंता द्वारा किया गया है।
3. कराये गये कार्य के सभी अवयवों के अवयववार 10% कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है।


18.03.24
J.E.


18.03.24
A.E.


18/3/24
कार्यपालक अभियंता
Executive Engineer
ग्रामीण कार्य विभाग
Jhansabad
कार्य प्रमंडल जहानाबाद

Name of road-Repair & Maintenance of Road from Gobindpur Middle School To Arhit Village

Name of Contractor-Adityashree Engicons Private Limited

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI	TEGORY	Latitudo	onglitudo	Event
		No.	in km	in mm	Rate	mm/km	mm/km	ROAD			
18/ 3/ 24	7: 30: 11	72	0.1	200	30.3	2000	2404	G	25.25567	85.15653	Normal
18/ 3/ 24	7: 30: 46	72	0.1	160	30.3	1600	1950	G	25.25542	85.15747	Normal
18/ 3/ 24	7: 31: 21	72	0.1	250	20.2	2500	2972	G	25.25503	85.15835	Normal
18/ 3/ 24	7: 32: 0	72	0.1	200	30.3	2000	2404	G	25.25542	85.15906	Normal
18/ 3/ 24	7: 33: 0	72	0.1	160	30.3	1600	1950	G	25.25532	85.16	Normal
18/ 3/ 24	7: 33: 7	72	0.1	180	30.3	1800	2177	G	25.25503	85.16096	Normal
18/ 3/ 24	7: 34: 18	72	0.1	250	20.2	2500	2972	G	25.25492	85.16192	Normal
18/ 3/ 24	7: 34: 18	72	0.1	200	30.3	2000	2404	G	25.25476	85.16291	Normal
AVERAGE							2404				

$$Y = 0 * X^2 + 1.136 * X + 132.5$$
$$X = 3100$$
$$Y = 3654$$

(R) RURAL ROAD

Good	Average	Poor
<4000	4001-5000	>5001

[Signature]
18.03.24
J.E

[Signature]
18.03.24
A.E

[Signature]
18/3/24
Executive Engineer
R. W. D. (IV) Division
Jhannabad


Steco Analyzer

Name of Customer : Adityashree Engicons Private Li
Name of Work/ Road : Middle School To Arhit Village
Lab Job number :
Date : 18-03-2024
Section No. : 72

Test Date : 18-03-2024 Road Name : Middle School To Arhit Village
Machine No : Road Type : (R) RURAL ROAD
Start S No : Side :
Start E No : Interval
Weather : IIV Range : 950 To 4000 1000 mm/km
Start Location : govindpur Dist Range : 0 To 0.9 0.1 * 1000 m
End Location : arhit Equation : $Y = 0 * X^2 + 1.136 * X + 132.5$

Print Generate Report and Graph

Redraw Graph Map View



18.03.24
J.C.
18/3/24
Executive Engineer
W. D. (W) Division
Jehanabad